

## बाल मृत्यु दर और मृत जन्म पर रपिपोर्ट

### प्रलिस के लयि:

बाल मृत्यु दर, मृत जन्म, यूनसिफ, ईट राइट इंडया, फटि इंडया मूवमेंट, रोगों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, समय से पहले जन्म

### मेन्स के लयि:

भारत में मृत जन्म और बाल मृत्यु दर का मुद्दा, सरकारी नीतियाँ और हस्तकषेप

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड नेशन इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन (UN IGME) द्वारा बाल मृत्यु दर (बाल मृत्यु दर का स्तर एवं प्रवृत्ति) और मृत जन्म पर दो वैश्विक रपिपोर्ट जारी की गईं।

## प्रमुख बडि

### ■ बाल मृत्यु दर का स्तर एवं प्रवृत्ति:

#### ○ मृत्यु दर से संबंधति आँकड़े:

- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में पाँच वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या 5 मिलियन थी।
- इनमें आधे से अधिक (2.7 मिलियन) 1-59 माह की आयु के बच्चे शामिल हैं, जबकि शेष (2.3 मिलियन) की जीवन के पहले माह (नवजात मृत्यु) में ही मृत्यु हो गई।
- भारत में पाँच वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 7 लाख है, जनिमें 5.8 लाख शशु मृत्यु (एक वर्ष से पूर्व मृत्यु) और 4.4 लाख नवजात मौतें शामिल हैं।

#### ○ मृत्यु दर में गरिावट:

- सदी की शुरुआत के बाद से वैश्विक अंडर-5 मृत्यु दर में 50% की गरिावट आई है, जबकि बड़े बच्चों और युवाओं की मृत्यु दर में 36% की गरिावट आई है एवं मृत जन्म दर में 35% की कमी आई है।
- यह महिलाओं, बच्चों और युवाओं के कल्याण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दशा में कथि जाने वाले नविश के परिणामस्वरूप है।
- हालाँकि वर्ष 2010 के बाद से प्रगतनाटकीय रूप से धीमी हो गई है और 54 देश अंडर-5 मृत्यु दर के लयि [सतत विकास लक्ष्यों](#) को पूरा करने में पीछे रह गए।

#### ○ कषेत्रवार वशिलेषण:

- उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशया में बाल मृत्यु दर की उच्चतम दर बनी हुई है, उप-सहारा अफ्रीका में पैदा हुए बच्चों के जीवति रहने की संभावना सबसे कम है।

#### ○ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य तक पहुँच:

- वशिव स्तर पर बच्चों के लयि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और उपलब्धता जीवन या मृत्यु का मामला बना हुआ है।
- अधिकांश बच्चों की मृत्यु पहले पाँच वर्षों में हो जाती है, जनिमें से 50% बच्चों की मृत्यु जीवन के पहले माह में ही हो जाती है।
- इन कम उमर के बच्चों के समय से पूर्व जन्म और प्रसव के दौरान जटलिताएँ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं।

#### ○ बढते संक्रामक रोग:

- वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने पाया कि जो बच्चे अपने जन्म के 28 दिनों तक जीवति रहते हैं, उनके लयि [मिोनया](#), [डायरया](#) और

मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियाँ सबसे बड़ा खतरा हैं।

#### ■ सटलिबर्थ (मृत जन्म) पर रपिर्ट:

- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में मृत जन्म का आँकड़ा अनुमानित 1.9 मिलियन है।
- वर्ष 2021 में भारत में मृत जन्मों की कुल अनुमानित संख्या (2,86,482) 1-59 माह (2,67,565) में मृत बच्चों की संख्या से अधिक थी।

### अधिकांश बच्चों की मृत्यु का कारण:

#### ■ समय पूर्व जन्म (गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पूर्व जन्मे बच्चे):

- यह एक चुनौती है क्योंकि 37 सप्ताह के गर्भ के बाद जन्म लेने वालों की तुलना में समय पूर्व जन्मे शिशुओं में जन्म के बाद मृत्यु का जोखिम दो से चार गुना अधिक होता है।
- विश्व स्तर पर प्रत्येक 10 जन्मों में से एक अपरपिक्व है; भारत में प्रत्येक छह से सात जन्मों में से एक समय से पूर्व होता है।
- भारत में समय पूर्व जन्म का एक बड़ा संकट है, जिसका अर्थ है कि देश में नवजात शिशुओं को जटिलताओं और मृत्यु दर का अधिक खतरा है।

#### ■ मृत जन्म:

- समय पूर्व जन्म और मृत जन्म दोनों की दर तथा संख्या अस्वीकार्य रूप से उच्च है जो भारत में नवजात शिशु एवं बाल मृत्यु दर को बढ़ाती है। इस प्रकार वे तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
  - एक बच्चा जिसकी गर्भावस्था के 22 सप्ताह के बाद लेकिन जन्म से पहले या उसके दौरान किसी भी समय मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत शिशु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- समय पूर्व जन्म और मृत जन्म पर उचित ध्यान न देने का एक कारण वसितृत और वशिवसनीय डेटा की कमी है।

### भारत की संबंधित पहल:

- **पोषण अभियान:** भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मशिन (NHM) या पोषण अभियान शुरू किया है।
- **एनीमिया मुक्त भारत अभियान:** वर्ष 2018 में शुरू किये गए इस मशिन का उद्देश्य एनीमिया की गरीबों की वार्षिक दर को 1-3 प्रतिशत अंक तक बढ़ाना है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** इसका उद्देश्य अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुँच एक कानूनी अधिकार बन जाता है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिये बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उनके बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपए हस्तांतरित किये जाते हैं।
- **समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना:** यह 1975 में शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, प्री-स्कूल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ प्रदान करना है।
- स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिये ईट राइट इंडिया और फाटि इंडिया मूवमेंट कुछ अन्य पहलें हैं।

### यूनाइटेड नेशन इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन (UN IGME):

- UN IGME का गठन वर्ष 2004 में बाल मृत्यु दर पर डेटा साझा करने, बाल मृत्यु दर अनुमान के तरीकों में सुधार करने, बाल उत्तरजीविता लक्ष्यों की दृष्टि में प्रगति पर रपिर्ट करने और बाल मृत्यु दर का सटीक अनुमान लगाने एवं देश की क्षमता को मज़बूत करने के लिये की गई थी।
- UN IGME का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसिफ) द्वारा किया जाता है और इसमें वशिव स्वास्थ्य संगठन, वशिव बैंक समूह और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग, जनसंख्या प्रभाग शामिल हैं।

### मृत जन्म और बाल मृत्यु दर को रोकने के लिये संभावित उपाय:

#### ■ ज्ञात और प्रमाणिक उपायों में वृद्धि करना:

- मृत जन्म और बाल मृत्यु दर को रोकने के लिये नमिन बटुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये:

- परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना।
- गर्भवती माताओं द्वारा आयरन फोलिक एसिड के सेवन सहित स्वास्थ्य और पोषण जैसी प्रसव पूर्व सेवाओं में सुधार।
- स्वस्थ आहार, और इष्टतम पोषण के महत्त्व पर परामर्श प्रदान करना।

- जोखिम कारकों की पहचान और प्रबंधन।
- **दशा-नरिदेशों का प्रभावी कार्यान्वयन:**
  - यद्यपि समय से पहले जन्म और मृत जन्म के आँकड़ों को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट किया जाए तो और बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
  - **अंतरराष्ट्रीय रोगों के वर्गीकरण** की परिभाषा के अनुरूप मातृ और प्रसवकालीन मृत्यु की नगिरानी से संबंधित दशा-नरिदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
    - इस वर्गीकरण के उपयोग से **मृत जन्म रिपोर्टिंग के कारणों को मानकीकृत करने में मदद मिलेगी।**
  - साथ ही भारत को स्थानीय और लक्षित हस्तक्षेपों के लिये स्टलिबर्थ/मृत जन्म एवं अपरपिक्व जन्म के प्रमुख क्षेत्र समूहों की पहचान करने की आवश्यकता है।
- **अधिक राशिका आवंटन:**
  - **वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% नविश करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
    - तब से छह वर्ष बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जाने वाले आवंटन में मामूली वृद्धि हुई है।
  - हालिया दो रिपोर्टों की मानें तो **अब समय आ गया है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अधिक राशिका आवंटित करे,** जिसकी शुरुआत आगामी **बजट** से की जा सकती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

**??????:**

**प्रश्न.** नमिनलखिति में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मशिन' के उद्देश्य हैं? (2017)

1. गर्भवती महिलाओं और सतनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. छोटे बच्चों, कशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामलों में कमी लाना।
3. बाजरा, मोटे अनाज और बनिा पॉलशि कयि गए चावल की खपत को बढ़ावा देना।
4. पोल्ट्री अंडे की खपत को बढ़ावा देना।

**नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) केवल 3 और 4

**उत्तर: (a)**

**??????:**

**प्रश्न.** कया लैंगकि असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वतित (माइक्रोफाइनैस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजयि। (2021)

**स्रोत: द हट्टि**